

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स के लिए नामांकन अब शुरू हो गए हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (2 फरवरी, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स (Accessibility Awards) के लिए नामांकन अब शुरू हो गए हैं।

एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स, नागरिक सम्मान वाला प्रोग्राम है, जिसमें ब्रैम्पटन के उन व्यक्तियों, कारोबारियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है, जो विकलांग व्यक्तियों की सुलभता और भागीदारी में प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

नामांकित व्यक्तियों का मूल्यांकन, निम्नलिखित क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों और योगदानों के आधार पर किया जाता है:

- **रुकावटों को रोकना और दूर करना** – रुकावट का प्रकार, व्यवहार संबंधी, बातचीत संबंधी, शारीरिक, प्रोग्राम संबंधी, सामाजिक या ट्रांसपोर्टेशन या पॉलिसी से संबंधित हो सकता है।
- **विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक प्रबंध करना** – इस तरह के प्रबंध में जगह, शेड्यूल या काम में ऐसा सुधार शामिल हो सकता है, जो किसी व्यक्ति को समुदाय में घुलने-मिलने में सक्षम बनाता हो।
- **सुलभता एम्बेस्डर या चैंपियन के तौर पर काम करना** – समुदाय के अंदर सुलभता संबंधी जागरूकता बढ़ाना।
- **विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सहायता प्रदान करना** – काम संबंधी वातावरण में शामिल होने के अवसर पैदा करना।
- **अच्छी सुलभ ग्राहक सेवा प्रदान करना** – ग्राहक के अनुरोध को समझने में समय लगाना और उपयुक्त समाधान पेश करना।
- **स्वतंत्र जीवन के लिए सहायता प्रदान करना** – कौशलों की ट्रेनिंग और सहयोग में सहायता करना।

इस वर्ष नया, अवॉर्ड्स प्रोग्राम में खुद का भी नामांकन किया जा सकता है।

अवॉर्ड के लिए योग्य होने हेतु, नामांकित व्यक्ति, ब्रैम्पटन का निवासी, ब्रैम्पटन में चलने वाला सामुदायिक या गैर-लाभ संगठन या ब्रैम्पटन में किसी कारोबार का मालिक होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि नामांकित व्यक्तियों की उपलब्धियों और योगदानों से, ब्रैम्पटन के समुदाय को फायदा पहुंचा हो।

नामांकन, 31 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। अवॉर्ड्स, वसंत में दिए जाएंगे।

एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स और ऑनलाइन नामांकन फार्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए, निवासी www.brampton.ca पर जा सकते हैं।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और सिटी, सुलभता को बढ़ाने और हमारे विविध समुदाय में सभी के लिए, अपनेपन की भावना को बढ़ाने के लिए अवसरों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति, कारोबारी या संगठन को जानते हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता और भागीदारी में सुधार के लिए काम कर रहा है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप 2021 के

एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स के लिए नामांकन जमा करके उन्हें सम्मानित करें। यह उन्हें सम्मानित करने का शानदार अवसर है, जो हमारे शहर को, सभी के लिए खास बनाने के लिए काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील की एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटीयों के मेम्बर के तौर पर, मुझे हमारी सिटी में, ब्रैम्पटन को हर क्षमता वाले लोगों के लिए सुलभ और खास बनाने के लिए, लोगों द्वारा किए जा रहे काम पर गर्व है। यदि आप हमारे समुदाय में, किसी ऐसे व्यक्ति, कारोबारी या संगठन को जानते हैं, जो विविधता के चैंपियन हैं और हमारे समुदाय में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कृपया उन्हें एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड के लिए नामांकित करें। इकट्ठे मिलकर, हम ब्रैम्पटन को हर क्षमता वाले लोगों के लिए अधिक सुलभ बना सकते हैं।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; मेम्बर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी; मेम्बर, रीजन ऑफ पील एक्सेसिबिलिटी एडवाइजरी कमेटी

“सिटी में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर उम्र और क्षमता वाले लोग, ब्रैम्पटन में बराबरी के अवसरों का आनंद लें। हम हर क्षमता वाले लोगों के लिए सुलभ जगहें बना रहे हैं। हमारे समुदाय में उन लोगों का धन्यवाद, जो ब्रैम्पटन में सुलभता को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी अवॉर्ड्स, उन व्यक्तियों, कारोबारियों और संगठनों को सम्मानित करने का अवसर है, जो विकलांग व्यक्तियों की सुलभता और भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca